

B.A. (NEP) - Semester-I
SEC27 - Soft Skills Development-I

P. Pages : 3

Time : Two Hours



GUG/W/24/15583

Max. Marks : 40

-
- Notes : 1. All questions are compulsory.
2. All questions carry equal marks.

1. a) Describe the concept of 'self'-awareness' **10**

OR

b) Describe the various personal responsibility.

2. a) Explain the process of communication. **10**

OR

b) What is the concept of 'Positive attitude'.

3. a) Describe the role of Time management in our life. **10**

OR

b) Which are the various advantage of Team work.

4. a) Which are the different barriers in the process of communication. **10**

OR

b) How on the positive attitude change our life.

B.A. (NEP) - Semester-I
SEC27 - Soft Skills Development-I

Time : Two Hours

Max. Marks : 40

- सुचना :- 1. सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहे.

1. अ) 'स्व-जाणीव' ह्या संकल्पनेचे वर्णन करा.

10

किंवा

ब) विविध वैयक्तिक जबाबदारीचे वर्णन करा.

2. अ) संप्रेषणाच्या प्रक्रियेचे सविस्तर स्पष्टीकरण करा.

10

किंवा

ब) 'सकारात्मक अभिवृत्ती' संकल्पना म्हणजे काय?

3. अ) व्यक्तिच्या जीवनात 'वेळेचे व्यवस्थापना'ची भूमिका स्पष्ट करा.

10

किंवा

ब) संघकार्याचे विविध फायदे कोणते आहेत?

4. अ) संप्रेषणाच्या प्रक्रियेतील विविध अडथळे कोणती आहेत?

10

किंवा

ब) 'सकारात्मक अभिवृत्ती' आपल्या आयुष्याचे कसे परिवर्तन करते?

B.A. (NEP) - Semester-I
SEC27 - Soft Skills Development-I

Time : Two Hours

Max. Marks : 40

- सुचनाएँ :- 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अ) 'आत्म जागरूकता' इस संकल्पना को विस्तार से लिखे। 10

अथवा

- ब) विभिन्न व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विस्तार से वर्णन करें।

2. अ) संप्रेषण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। 10

अथवा

- ब) 'संकारात्मक वृत्ति' इस संकल्पना को विस्तार से लिखे।

3. अ) व्यक्ति के जीवन में समय का व्यवस्थापन का क्या महत्व है स्पष्ट करें। 10

अथवा

- ब) संघकार्य के विभिन्न लाभ विस्तार से लिखे।

4. अ) संप्रेषण की प्रक्रिया में आने वाले विभिन्न रुकावटों को विस्तार से लिखे। 10

अथवा

- ब) 'सकारात्मक वृत्ति' अपने जीवन को कैसे परिवर्तित करती है?
